



7. अनुभव/Experience

क्र. सं. S. No.	पद का नाम Name of Post	वेतनमान Scale of Pay	संस्थान का नाम Nature of the Institute	अवधि		कार्य की प्रकृति Nature of Work
				कब से From	कब तक To	

8. कुल प्रकाशित पत्र/मोनोग्राफ का विवरण/Total No. of Papers/ Monographs Published (Give details)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. संगोष्ठी /कार्यशाला में सहभागी (राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय) Seminars/Symposium/Workshop attended

(National/International): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. विशेषता/Specialization, if any \_\_\_\_\_

11. संलग्न पत्रादि का विवरण /Details of Enclosures:

1. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ 7. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ 8. \_\_\_\_\_

यह प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त सुचना मेरे ज्ञान व विश्वास में पूर्णतः सही है और कुछ भी छुपाया अथवा मिथ्या प्रस्तुत नहीं किया गया है | It is certified that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief that nothing has been concealed or misrepresented. I Understand that action can be taken against me if declared guilty of any of the information submitted, as false.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Signature of Applicant